



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

31 आषाढ 1938 (श0)  
(सं0 पटना 615) पटना, शुक्रवार, 22 जुलाई 2016

---

विधि विभाग

-----  
अधिसूचना

18 जुलाई 2016

एस0ओ0 163, दिनांक 22 जुलाई 2016—जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-891/जि0विधि, दिनांक 11.04.2016 के अनुसरण में दरभंगा जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप दरभंगा जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधितवादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री अंजनी कुमार भगत, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-80/1986 है, को जिनका निर्धारित कालावधि अगस्त, 2013 को समाप्त हो चुका था तथा उसके बाद भी वह कार्यरत थे, उनके द्वारा किये गये कार्यों को विनियमित करते हुए पुनः अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा लेकिन उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।

3. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह निष्पादित एवं कारणों सहित लम्बित मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तथा जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक अभियोजक निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से सम्बन्धित लम्बितवादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

5. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक यदि लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील/विशेष लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत है। एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क देय होगा।

(सं० सी०/ए०एस०-03-45/2007/4388/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 615-571+25-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>